



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90]  
No. 90]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 22, 1982/चैत्र 1, 1904  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 22, 1982/CHAITRA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, समार्व्तीय, अहमदाबाद  
अधिसूचना

संख्या 2/82 सीमाशुल्क

अहमदाबाद, 7 मार्च, 1982

सां०क्रा०नि० 263 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 8 की उपधारा (क) के अन्तर्गत प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री श्री बी०बी० कुमार, समाह्वता, सीमाशुल्क, गुजरात, अहमदाबाद एतद्द्वारा कृपक भारतीय को-ऑपरेटिव लि., नई दिल्ली द्वारा मन्वि, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमाशुल्क, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली को संबोधित अपने पत्र संख्या एच० पी०/06/5/4009/के/जी/एन-275 दिनांक 7 अगस्त, 1981 में उल्लिखित हजोरा फटिलाइजर प्रायोजना, सूरत के 13 (तेरह) बृहदाकार आयोजित उपकरणों के प्रचलन के लिए, तापन नदी के दाएं किनारे, कृपक भारतीय

को-ऑपरेटिव लि. (क.भ.को.), नई दिल्ली के प्रायोजना स्थल के निकट जहाज वाट और क्लान (जलानतरण संघ) के रूप में प्रस्तावित गोदी अनुमोदित करवाते, जो हजोरा जलदीप में तापन नदी की ऊपरी धारा पर लगभग 15 कि०मी० दूर स्थित है और जहाजगर्भ नहर (नेविगेशन चैनल) से गुजरता है। उपर्युक्त अवतरण स्थान जिसे सूरत, तापुका जीयसी गांव खवास की भूमि सर्वेक्षण संख्या 255 ए पर स्थित घोषित किया गया है और उसमें सटे हुए सर्वेक्षण संख्या 259 (उत्तर) 254 (वर्षिण), 71 (पश्चिम) और 255 (पूर्व) हैं और कृपक भारतीय को-ऑपरेटिव (हजोरा प्रायोजना) के द्वारा घोषित और इस कार्यालय को प्रस्तुत अपने योजना के अन्विष्टन संख्या 1280 दिनांक 7-8-1980 के अनुसार क्लान व जहाज वाट का विस्तार निम्न अनुसार होगा :—

(1) जहाज वाट 147 मीटर × 30 मीटर  
(2) क्लान 72.5 मीटर × 20 मीटर

यह अधिसूचना उक्त हजोरा फटिलाइजर प्रायोजना, सूरत के बृहदाकार आयोजित उपकरणों का सम 13 मी० के उपर्युक्त अवतरण स्थान पर उत्तर आने और सीमा शुल्क प्रभार से विमुक्त हो जाने तक लागू रहेगी।

परिशिष्ट-1

भारी वजन/बृहदाकार वस्तुओं की अंतिम सूची

क्रम सं०	मद सं०	वस्तु	को सं०	संगमग आकार	संगमग वजन (प्रत्येक का)
1	2	3	4	5	6
एमोनिया प्लान्ट					
1.	121-सी	एमोनिक कन्वर्टर/कोड/एकतुल्य एक्सचेंजर	2	3.0 मी व्यास × 19.0 मी लम्बा	146.50 मी० टन
2.	123-सी	एमोनिक कन्वर्टर/एकतुल्य/को एफ डब्ल्यू एक्सचेंजर	2	3.0 मी व्यास × 18.0 मी लम्बा	132.00 मी० टन

1	2	3	4	5	6
3.	105-डी एमोनिया कन्वर्टर (एचटी)		2	4.0 मी व्यास × 27.0 मी लम्बा	550.00 मी० टन
4.	103-डी सेकण्डरी रिफार्मर		2	5.0 मी व्यास × 17.0 मी० लम्बा	105.00 मी० टन
5.	104-डीए शिफ्ट कन्वर्टर (एचटी)		2	6.0 मी व्यास × 12.0 मी लम्बा	115.00 मी० टन
6.	104-डीबी शिफ्ट कन्वर्टर (एचटी)		2	6.0 मी व्यास × 11.5 मी० लम्बा	85.0 मी० टन
7.	101-ई सीओ <sub>2</sub> एब्जॉर्बर		2	5.0 मी व्यास × 50.0 मी० लम्बा	260.05 मी० टन
8.	101 ई सीओ <sub>2</sub> स्ट्रिपर		2	6.5 मी० व्यास × 62.0 मी० लम्बा	260.00 मी० टन
9.	101-ए फ स्टीम ड्रम		2	3.65 मी० व्यास × 20.0 मी० लम्बा	150.00 मी० टन
	यूरिया प्लान्ट				
10.	आर-1 यूरिया रिफ़ाय्नर		4	3.0 मी व्यास × 43.0 मी० लम्बा	180.00 मी० टन
11.	सी-2 डिस्टिलिएशन टावर		2	1.6 मी व्यास × 36.0 मी० लम्बा	
12.	ई-1 स्ट्रिपर		4	2.2 मी व्यास × 10.0 मी० लम्बा	80.00 मी० टन
13.	ई-5 एचपी कार्बोनेट कंडेंसर		4	2.8/3.5 मी व्यास × 18.0 मी० लम्बा	80.00 मी० टन

[फा० सं० VIII/43-सी०/गु०-सक/81]

बी०बी० कुमार

समाहर्ता

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, ग्रहमदाबाद

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Customs &amp; Central Excise Collectorate, Ahmedabad

## NOTIFICATION

No. 2/82 CUSTOMS

Ahmedabad, the 7th March, 1982

**G.S.R. 263(E).**—In exercise of the powers conferred under sub-section (a) of Section 8 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), I, Shri B. V. Kumar, Collector of Customs, Gujarat, Ahmedabad, hereby approve a temporary berth in the form of a wharf and a ramp (slip way) on the right bank of Tapti River at the project site of the Krishak Bharti Coop. Ltd., (KRIBHCO) New Delhi located at approximately 15 K.M. upstream of the River Tapti from the Hazira Light House, approachable by Navigational channel as a temporary landing place for unloading of 13 (thirteen) oversize

imported equipments of Hazira Fertilizer Project, Surat of the Krishak Bharati Co-operative Limited, New Delhi mentioned in their letter No. HP/06/5/4009/KGL-275 dated 7th August, 1981 addressed to the Secretary Central Board of Excise & Customs, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi. The above landing place is declared to have been located on land survey No. 255A of village Kawas, Taluka Chaurasi, Dist. Surat and adjoining survey Nos. are 259(North), 254(N), 71(W), and 255(E) and the size of wharf and ramp will be as under, as declared by the Krishak Bharati Co-op. (Hazira Project) in their drawing of project No. 1780 dated 7-8-1980 furnished to this office.

(i) Wharf 147 Meter X 30 Meter

(ii) Ramp 72.5 Meter X 20 Meter

This notification shall remain in force till all the 13 (thirteen) items of heavy over sized imported equipments of Hazira Fertilizer Project, Surat are landed at the above landing place and cleared from the customs charge.

## ANNEXURE I

## TENTATIVE LIST OF HEAVY WEIGHT/OVER DIMENSION EQUIPMENT

Sl. No.	Item No.	Equipment	Nos. Off	Approximate dimensions	Approximate weight (each).
<b>AMMONIA PLANTS</b>					
1.	121-C	Ammonic converter/Fed/Effluent exchanger.	2	3.0M dia x 19.0M long	145.50 MT.
2.	123-C	Ammonia Converter Effluent/BFW exchanger.	2	3.0M dia x 18.0M long	132.00 MT.
3.	105-D	Ammonia Converter (HT)	2	4.0M dia x 27.0M long	550.00 MT.
4.	103-D	Secondary Reformer	2	5.0M dia x 17.0M long	105.00 MT.
5.	104-DA	Shift Converter (HT)	2	6.0M dia x 12.0M long	115.00 M.T
6.	104-DB	Shift Convert (LT)	2	6.0M dia x 11.5M long	85.00 MT.
7.	101-E	CO <sub>2</sub> Absorber	2	5.0M dia x 50.0M long	260.00 MT.
8.	102-E	CO <sub>2</sub> Stripper	2	6.5M dia x 62.0M long	260.00 MT.
9.	101-F	Steam Drum	2	3.65 M dia x 20.0 M long	150.00 M.T
<b>UREA PLANTS</b>					
1.	R-1	Urea Reactor	4	3.0M dia x 43.0M long	180.00 MT.
	C-2	Distillation Tower	2	1.6M dia x 36.0 M long	
	E-1	Stripper	4	2.2M dia x 10.0M long	80.00 MT.
	E-5	HP carbonate condenser	4	2.8/3.5 M dia x 18.0M long	80.00 MT.

[F. No. VIII/43-2/Cus-Tech/81]

B. V. KUMAR, Collector,

Customs &amp; Central Excise, Ahmedabad